



चलार्थ पत्र मुद्रणालय : नासिक / CURRENCY NOTE PRESS : NASIK  
( भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड की इकाई )  
(A Unit of Security Printing and Minting Corporation of India Limited)  
मिनिरत्न वर्ग - I, सीपीएसई / Miniratna Category-I, CPSE  
भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधिन / Wholly owned by Government of India

**NOTICE**

**Notice No. CNP/HR/DV/2023/34**

**Date :- 01/04/2023.**

**SCHEDULE FOR DOCUMENTS VERIFICATION FOR PROVISIONALLY SELECTED CANDIDATES**

It is with reference to the Notice No. CNP/HR/Result/2023/32 dated 30.03.2023 whereby the result of provisionally selected candidates has been notified in connection with Advisement No. CNPN/HR/Rect./01/2021. Now the following date and time is scheduled for Document Verification to the following provisionally selected candidates, the details are as under:-

**1) Secretarial Assistant (Level B-4), Post Code – 05- Category- (UR)-01**

**“No Candidate qualified for this post.”**

**2) a) Junior Office Assistant / (Level B-3), Post Code – 06- Category- (UR)-03**

Roll No.	Rank	Regt. No.	Category	Sex (Male/Female)	Date of Birth	Name of the candidate	Total Marks obtained out of 160	Documents Verification Date and Time
1520000009	1	114018695	UR	Male	09.11.1995	Akash Chona	140	Date : 10.04.2023 Time 09.00 a.m onwards
1620000007	2	114018057	OBC	Male	04.07.1996	Gopal Krishna Swarnkar	136	
1620000024	3	114019099	UR	Female	11.06.1997	Manisha Keswani	135	

**2) b) Junior Office Assistant / (Level B-3) & Post Code – 06- Category- (OBC)-03**

Roll No.	Rank	Regt. No.	Category	Sex (Male/Female)	Date of Birth	Name of the candidate	Total Marks obtained out of 160	Documents Verification Date and Time
1220000014	1	114015631	OBC	Male	26.05.1993	Gaurao Rajendra Bijwe	133	Date : 10.04.2023 Time 09.00 a.m onwards
1620000036	2	114007843	OBC	Male	18.09.1999	Aditya Chouksey	127	
1420000038	3	114000213	OBC	Male	12.06.1991	Surakaram Raj Kumar Goud	126	

Further this is to inform you that the place of documents verification is at **Currency Note Press, Jail Road, Nasik, Pin-422101 Maharashtra.** A separate letters for Document Verification is being sent shortly through e-mail / by post.

**Note:** For list of required documents is enclosed in **Annexure “A”** (in bilingual) for ready reference, which was already communicated in your Documents verification letter. Hence all the provisional selected candidates will be available on the above scheduled date time and place accordingly.

Sd/-  
Joint General Manager – HR  
For Chief General Manager

इस संबंध में आपको सूचित किया जाता है की, उपरोक्त पद के लिए आपको अनंतिम रूप से चयनित किया गया है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप निम्नलिखित सभी मूल दस्तावेजों और उनकी सत्यापित एक सेट फोटोकॉपी के साथ उपस्थित हो।

In this regard, this is pleased to inform you that you have been provisional selected for the said post hence you are requested to bring all the following original documents and one set of their attested photocopies

1. केन्द्र / राज्य बोर्ड द्वारा जारी मेट्रिक / 10वीं कक्षा के समानांतर प्रमाणपत्र या अंक तालिका जिसमें आपके उम्र के दावे के समर्थन में जन्म तिथि दर्शाई गई हो। प्रमाणपत्र / अंक तालिका में जहाँ जन्मतिथि उपलब्ध नहीं है वहाँ संबंधित शैक्षणिक बोर्ड द्वारा जारी विद्यालय छोड़ने का प्रमाणपत्र जिसमें जन्मतिथि दर्शाई गई हो, (तमिलनाडु तथा केरल राज्यों के मामले में) लागू होगा।

Matriculation/10<sup>th</sup> Standard of equivalent certificate or mark sheet issued by Central / State Board indicating Date of Birth in support of their claim of age. Where date of birth is not available in certificate / mark sheets, issued by concerned Educational Boards, School leaving certificate indicating Date of Birth will be considered (like in case of Tamil Nadu & Kerala).

2. शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण के दावे के लिए सभी अकैडमिक वर्षों से संबंधित सभी अंक तालिकाओं के साथ संगत डिग्री / डिप्लोमा/ आईटीआई प्रमाणपत्र (पात्रता के अनुसार) प्रस्तुत करें। डिग्री / डिप्लोमा / का संगत आईटीआई प्रमाणपत्र ना होने पर, सभी अकैडमिक वर्षों की अंक तालिकाओं के साथ अस्थायी प्रमाणपत्र (प्रोविजनल सर्टिफिकेट)स्वीकार किया जायेगा।

Submit your relevant Degree / Diploma / ITI certificate along with mark sheets as per eligibility pertaining to all the academic years as proof of educational qualification claimed. In the absence of relevant Degree / Diploma certificate, provisional certificate along with mark sheets pertaining to all the academic years will be accepted.

3. उपक्रम / राज्य सरकार / केन्द्र सरकार के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र/ संस्थान / विभाग के प्रमुख द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र में समस्त अनुभव जिसमें रोजगार की अवधि (तारीख, माह एवं वर्ष), मूल वेतन एवं समेकित वेतन, निष्पादित की गई सेवा प्रकृति, पद पर रहने की अवधि के दौरान अर्जित अनुभव स्पष्ट रूप से उल्लिखित एवं दर्शाई गई हो। केवल संगत पद से संबंधित अनुभव पर ही विचार किया जायेगा।

No Objection Certificate (NOC) for PSU/State Govt./ Central Govt., Experience Certificate(s) from the Head(s) of Organization(s)/ Department(s) for the entire experience claimed, clearly mentioning the duration of employment (date, month & year) indicating the basic pay and consolidated pay, nature of duties performed / experience obtained in the post(s) with duration(s). Only the experience in the field relevant to the post would be considered.

4. यदि उम्मीदवार अ.जा./अ.ज.जा./ अ.पि.व. के रूप में आरक्षण को मांग कर रहा है तो सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त जाति प्रमाण पत्र जिसमें उम्मीदवार की जाति और जिस अधिनियम/आदेश द्वारा वह जाति अ.जा./अ.ज.जा./अ. पि.व. के रूप में चिन्हित हुआ है तथा उम्मीदवार के गाँव/ शहर के मूल निवास के पते का उल्लेख स्पष्ट रूप से होना चाहिए। यदि उम्मीदवार अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आता है तो उसे जाति प्रमाणपत्र ( अ.पि.व.) के अतिरिक्त एक घोषणा भी देनी होगी कि वह नियमित तिथि से क्रिमिलेयर से संबंधित नहीं है।

Caste certificate in case of candidates seeking reservation as SC/ST/OBC from the competent authority indicating clearly the candidate's Casts, the Act/ Order under which the Caste is recognized as SC/ST/OBC and the village / town the candidate is ordinarily a resident of. A declaration by candidate seeking reservation as OBC, that he/she does not belong to the creamy layer on the crucial date, in addition to the community certificate (OBC).

5. उम्मीदवार द्वारा मैट्रिक्युलेशन परीक्षा के बाद विवाह या पुनर्विवाह या तलाक इत्यादि होने पर नाम परिवर्तन के दावे के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।

Candidate claiming change in name after matriculation on marriage or remarriage or divorce etc. must submit the requisite documents.

6. उम्मीदवार यह सुनिश्चित करें की मैट्रिक / अन्य प्रमाणपत्र / दस्तावेज तथा ऑनलाइन आवेदन में उल्लिखित नाम के बीच किसी भी प्रकार की कोई विसंगति होने के मामले में (जैसे स्पेलिंग की गलती या नाम में कुछ जोड़ने / हटाने के कारण या उम्मीदवार के नाम के साथ पिता या माता का नाम जुड़ा होना), सत्यापन के समय मूल शपथपत्र प्रस्तुत करें जिसमें यह उल्लेख हो की दोनों प्रमाणपत्रों में उल्लिखित नाम एक ही व्यक्ति / उसी व्यक्ति से संबंधित है।

The candidates should ensure that in case of any discrepancy between name recorded in the Matriculation/other certificates/documents and online application (such as spelling error or due to addition/ deletion of part of any name or when name of the candidate is inclusive of the name of father and/or mother) an affidavit in ORIGINAL is required to be produced at the time of verification that both the name/names in both the certificates belong to one and same person.

7. कृपया सत्यापन के समय इस पत्र के साथ वैध फोटो पहचान पत्र की मूल प्रति एवं सरकार द्वारा जारी आवासीय पता का प्रमाणपत्र अपने साथ लाएं।

The candidate will bring valid photo Identity proof permanent residential address proof certificate issued by concerned Govt. Authority in original.